



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 श्रावण, 1941 (श०)

---

संख्या- 632 राँची, बुधवार, 31 जुलाई, 2019 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

25 जुलाई, 2019

**संख्या- 3/पद-01(ग)-01/2016 का.- 5967--** श्री रवि रंजन, भा०व०से०, अभियान निदेशक, झारखण्ड राज्य स्किल मिशन सोसायटी, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या- 3/पद-01(ग)-01/2016 का.- 5968--** श्री मनीष कुमार, भा०व०से० (झा:2013), संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

**संख्या- 3/पद-01(ग)-01/2016 का.- 5969--** श्री दिनेश कुमार सिंह, झां०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 624/03, गृह जिला- भोजपुर) संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार विशेष कार्य पदाधिकारी, नमामि गंगे परियोजना, झारखण्ड, राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनिल कुमार सिंह,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----